



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1936 (श०)
(सं० पटना 212) पटना, बुधवार, 28 जनवरी 2015

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

अधिसूचना

20 अक्टूबर 2014

सं० सा०प्र० 11/2012 बि.रा.अ.-384—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके नियंत्रणाधीन कार्यरत क्षेत्रीय अभिलेखागारों के लिए स्वीकृत समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**।- (1) यह नियमावली “बिहार राज्य अभिलेखागार समूह 'ख' (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएं**। - जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
(i) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
(ii) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iii) “विभाग” से अभिप्रेत है मंत्रिमंडल सचिवाल विभाग;
(iv) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है अभिलेख निदेशक, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय;
(v) संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं इसके अधीन क्षेत्रीय अभिलेखागारों के समूह 'ख' के पद।
3. **संवर्ग का गठन**। - इस संवर्ग में शामिल विभिन्न कोटि के पद परिशिष्ट-१ के अनुसार होंगे- उपर्युक्त कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जो उन पदों के लिए राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

4. **प्राधिकृत बल।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि का पद बल वह होगा, जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाय। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कोटि के पदों के संवर्ग बल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
5. **भर्ती।** - नियमावली में अंकित सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया **परिशिष्ट I** के अनुसार होगी।
6. **अर्हता।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता **परिशिष्ट-१** के अनुसार होगी।
7. **आरक्षण।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित आरक्षण अधिनियम एवं आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
8. **परिवीक्षा अवधि।** - परिवीक्षा अवधि नियुक्ति की तिथि के बाद दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ाई गई अवधि में भी यदि सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो बिना किसी सूचना के संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा।
9. **प्रशिक्षण।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए प्रशिक्षण का निर्धारण **परिशिष्ट-१** के अनुसार होगा।
10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों के लिए विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-१** के अनुसार होंगे।
11. **संपुष्टि।** - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्त किसी भी कार्मिक की सेवा संपुष्टि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति तथा उस पद के लिए निर्धारित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा।
12. **कोटि में वरीयता का निर्धारण।** - कार्मिकों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार होगी।
13. **अवशिष्ट मामले।** - जिन विषयों/बिंदुओं के लिए प्रावधान इस नियमावली में नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के प्रावधान लागू समझे जायेंगे।
14. **कठिनाइयों का निराकरण।** - इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो इस नियमावली के प्रावधानों के अधधीन उसका निराकरण विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
15. **निर्वचन।** - इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के लिए विभाग विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् सक्षम होगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
16. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** - (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध में लागू सभी नियम, संकल्प, परिपत्र आदि एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, नियमावली, संकल्प या परिपत्र इत्यादि के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्ति थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश मेहरोत्रा,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 20th October 2014

No. Sa.Pra. 11/2012 B.S.A.-384—In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulating process of recruitment and condition of services to the sanctioned posts of Group 'B' under Bihar State Archives Directorate and Regional Archives falling under its jurisdiction.

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These Regulation may be called the **"Bihar State Archives Group 'B' (Appointment and service conditions) Rules, 2014"**

- (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.
2. **Definitions.-** In these Rules, Unless otherwise requires in the context :-
 - (i) "State Government" means the Government of Bihar;
 - (ii) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission;
 - (iii) "Department" means Cabinet Secretariat Department;
 - (iv) "Appointing Authority" means Director of Archives, Bihar, Bihar State Archives Directorate; and
 - (v) Cadre means post of Group 'B' in Bihar State Archives and Regional Archives falling under its Jurisdiction.
3. **Constitution of Cadre.** - This cadre shall include the posts of different categories according to **Annexure - 1**. Pay scale of the posts of above noted categories will be such as may determined by the State Government (Finance Department).
4. **Cadre Strength.-** The cadre strength of these categories of this cadre shall be such as may determined by the State Government from time to time. Cadre strength may be changed by the State Government.
5. **Recruitment.-** Educational qualification and process of recruitment of posts mentioned in the Rule shall be according to **Annexure -1**.
6. **Qualification.** - Qualification for direct recruitment to several posts of the Cadre shall be according to **Annexure -1**.
7. **Reservation.-** The provisions of Reservation Act and Reservation roster prescribed by the State Government, from time to time will be applicable in the appointment to the posts of this Cadre.
8. **Probation Period.-** Probation period will be two years after the date of appointment. If the service is not found satisfactory during probation period, it can be extended for one year. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the person concerned may be removed from service without any notice.
9. **Training.** - Training for different categories of the cadre shall be determined according to **Annexure-1**.
10. **Departmental Exam and Syllabus.-** Departmental exam and syllabus for different categories of the cadre shall be according to **Annexure-1**.
11. **Confirmation.-** The personnel appointed in this Cadre may be confirm in service by the 'Appointing authority' after completion of probation period and passing the essential training/exam determined for the post.
12. **Determination of Seniority in the Category.-** Seniority will be determined on the merit list recommended by the Commission.
13. **Residuary Matters.-** The matters points for which provisions have not been made in these Rules in respect of them the provisions of relevant Rules of State Government will be deemed to be applicable.
14. **Removal of Difficulties.-** If any difficulty arises in the implementation of the provisions of these Rules, the Department may, remove such difficulties in consultation with the Law Department subject to the provisions of these Rules.

15. **Interpretations.**- The Department will be competent for interpretations of any provision of these Rules after in consultation with Law Department, and its decision shall be final.
16. **Repeal & Saving.**- (1) All Rules, Resolutions and Circulars etc. issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Rules. Resolutions and Circulars will be deemed to be done or taken under these Rule as if it were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Principal Secretary to Government .

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 212-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>